

पामस्टर्न नॉर्थ सिटी काउंसिल का चुनाव 16 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर 2022 के बीच होगा। चुनाव 1 मेयर और 15 पार्षदों के लिए है।

Te Pūao Māori (ते पुआओ माओरी) वार्ड (माओरी मतदाता सूची में शामिल लोगों के लिए) का प्रतिनिधित्व करने के लिए 2 पार्षद चुने जाएंगे और Te Hirawanui (ते हिरावानुई) वार्ड (सामान्य मतदाता सूची में शामिल लोगों के लिए) का प्रतिनिधित्व करने के लिए 13 पार्षद चुने जाएंगे।

### काउंसिल क्या करती है?

सिटी काउंसिल पामस्टर्न नॉर्थ में लोगों के रोजमर्रा के जीवन पर प्रभाव डालने वाले कई निर्णय लेने के लिए नियमित रूप से बैठक करती है। परिषद सड़क, पानी की व्यवस्था, कूड़ा संग्रहण, पुस्तकालय, पार्क, सामुदायिक केंद्र, कुत्ते का पंजीकरण, सामुदायिक और आर्थिक विकास और शहर की योजना सहित स्थानीय सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला का नियंत्रण करती है।

### कैसे चुना जा सकता है?

चुनाव मतदाताओं के लिए एक ऐसी परिषद को चुनने का मौका होता है, जो हमारे समुदाय में मौजूद विभिन्न विचारों और दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करेगी।

चुनाव में खड़े होने के लिए आपका निम्नलिखित होना जरूरी है:

- न्यूज़ीलैंड का नागरिक होना **और**
- एक निर्वाचक के रूप में नामांकित होना (इसका मतलब यह भी है कि आपकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए) **और**
- पामस्टर्न नॉर्थ के दो निर्वाचकों द्वारा नामांकित किया जाना।

नोमिनेशन (नामांकन) शुक्रवार 12 अगस्त 2022 को दोपहर 12 बजे बंद हो जायेंगे।

### कौन मतदान कर सकता है?

केवल नामांकित लोग ही मतदान कर सकते हैं। आप नामांकन और मतदान करने के योग्य हैं अगर:

- आपकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है **और**
- आप न्यूज़ीलैंड के नागरिक या स्थायी निवासी या निवासी वीजा धारक हैं **और**
- आप न्यूज़ीलैंड में किसी समय के दौरान एक वर्ष या उससे अधिक समय तक लगातार रह चुके हैं।

यदि आप कुक आइलैंड माओरी, नुइयन, टोकेलाउन या ऑस्ट्रेलियन हैं तो आप एक बार न्यूज़ीलैंड में 12 महीने तक लगातार रह चुकने के बाद आप नामांकन कर सकते हैं; नामांकन करने और वोट देने के लिए आपके पास निवासी वीजा होने की जरूरत नहीं है।

नामांकन करने के लिए, [vote.nz](http://vote.nz) जाएँ या 0800 36 76 56 नम्बर पर फोन करें।

### मतदान कैसे करें:

नामांकन करने वाले सभी लोगों को 16 सितंबर 2022 को डाक में एक वोटिंग पैक (वोट डालने के कागजात) भेजा जाएगा। वोटिंग पैक में वोटिंग (वोट डालने के) फॉर्म को पूरा करने के बारे में निर्देश शामिल होंगे।

न्यूज़ीलैंड में मतदान करना बहुत सुरक्षित है, और आपका वोट हमेशा गोपनीय रहेगा। जब तक कि आप ऐसा नहीं चाहते, आपको किसी को यह बताने की जरूरत नहीं है कि आपने किसे वोट दिया है।

### मतदाताओं के लिए महत्वपूर्ण तिथियां

16 सितंबर 2022

वोटर पैक डाक से भेज दिए गए हैं और मतदान आरंभ हो गया है।

8 अक्टूबर 2022

दोपहर 12 बजे मतदान बंद

13 अक्टूबर 2022

आधिकारिक परिणाम घोषित

### मदद या अधिक जानकारी के लिए

वोट डालने के लिए नामांकन के लिए: 0800 36 76 56 नम्बर पर फोन करें या [vote.nz](http://vote.nz) वेबसाइट पर जाएं

मतदान करने या चुनाव सम्बन्धी अन्य प्रश्नों में मदद के लिए: 0800 922 822 नम्बर पर फोन करें

आप सहायता के लिए पामस्टर्न नॉर्थ काउंसिल के रिसेप्शन या मानावतु मल्टीकल्चरल सेंटर (बहुसांस्कृतिक केंद्र) पर भी जा सकते हैं।